



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 1983/माघ 1, 1904
No. 6] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 1983/MAGHA 1, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1983

आ. अ. 11(अ).—तमिलनाडू राज्य से राज्य सभा के लिए
निर्वाचित एक सदस्य श्री आर. मोहनारंगम के राज्य सभा का
सदस्य होने या रहने के लिए संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क)
के अधीन विरह हो जाने के कारण राज्य सभा में एक रिक्ति
हो गई है ;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा
147 की उप-धारा (1) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग तमिल-
नाडू राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्वारा यह
अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए
तारीख 11 फरवरी, 1983 से पूर्व उक्त अधिनियम के और
न्यूनतम बनाए गए नियमों और दिए गए आदेशों के उपबन्धों के
अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ।

[सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 21st January, 1983

O.N. 11(E).—Whereas a vacancy has occurred in the Coun-
cil of States due to the disqualification of Shri R. Mohana-
rangam, a member elected to the Council of States from
1236 GI/82

Tamil Nadu, under article 102(1)(a) of the Constitution for
being a member of the Council of States ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-sec-
tion (1) of Section 147 of the Representation of the People
Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the
elected members of the Legislative Assembly of the State of
Tamil Nadu to elect, in accordance with the provisions of
the said Act and of the rules and orders made thereunder,
a person to fill the vacancy so caused before 11th February,
1983.

[No 100/CS-TN/1/82(1)]

आ. अ. 12(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
की धारा 39 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में
निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 21 जनवरी, 1983 की अधिसूचना
सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(1) के अनुसरण में राज्य सभा
के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए एतद्वारा नियत किया
जाता है :

- (क) 28-1-83 (शुक्रवार)—नाम निर्देशन करने के लिए
अन्तिम तारीख ;
- (ख) 29-1-83 (शनिवार)—नाम निर्देशनों की संवीक्षा
की तारीख ;
- (ग) 31-1-83 (सोमवार)—अभ्यर्थिताएं वापस लेने क
लिए अन्तिम तारीख ;
- (घ) 7-2-83 (सोमवार)—यह तारीख जिसका यदि
आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ; तथा

(इ) 11-2-83 (शुक्रवार)—वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा ।

[सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(2)]

O.N. 12(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-TN/1/82(1), dated the 21st January, 1983 :—

- (a) 28-1-83 (Friday) as the last date for making nominations
- (b) 29-1-83 (Saturday) as the date for scrutiny of nominations
- (c) 31-1-83 (Monday) as the last date for the withdrawal of candidatures.
- (d) 7-2-83 (Monday) as the date on which a poll, shall, if necessary, be taken; and
- (e) 11-2-83 (Friday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-TN/1/82(2)]

आ.अ. 13(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 21 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए एतद्द्वारा 10-00 बजे पूर्वाह्न से 2-00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा ।

[सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(3)]

O.N. 13(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 a.m. to 2.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-TN/1/82(1), dated the 21st January, 1983.

[No. 100/CS-TN/1/82(3)]

आ.अ. 14(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग तमिलनाडु सरकार के परामर्श से, सचिव, विधान सभा विभाग, मद्रास को, इस आयोग की तारीख 21 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ।

[सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(4)]

O.N. 14(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Tamil Nadu, hereby designates the Secretary, Legislative Assembly Department, Madras to be the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-TN/1/82(1), dated 21st January, 1983.

[No. 100/CS-TN/1/82(4)]

आ.अ. 15(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उप सचिव (ए), विधान सभा विभाग, मद्रास को इस आयोग की तारीख 21 जनवरी, 1983 की अधिसूचना सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(1) के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने व लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[सं. 100/रा.स.-त.ना./1/82(5)]

आदेश ने,
के. गणेशन, सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 15(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary (A) Legislative Assembly Department, Madras to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-TN/1/82(1) dated the 21st January, 1983 the performance of his functions.

[No. 100/CS-TN/1/82(5)]

By Order,
K. GANESAN, Secy.
Election Commission of India.